



सत्यमेव जयते

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Certificate for COVID-19 Vaccination

Issued in India by Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

Certificate ID 45357444934

Beneficiary Details

Beneficiary Name / लाभार्थी का नाम	Hari Om Yadaw
Age / उम्र	24
Gender / लिंग	Male
ID Verified / पहचान पत्र सत्यापित	Aadhaar # XXXXXXXX3216
Unique Health ID (UHID)	
Beneficiary Reference ID	7127532003328
Vaccination Status / टीकाकरण की स्थिति	Fully Vaccinated (2 Doses)

Vaccination Details

Vaccine Name / वैक्सीन का नाम	COVISHIELD
Vaccine Type / टीका का प्रकार	COVID-19 vaccine, non-replicating viral vector
Manufacturer / उत्पादक	Serum Institute of India Pvt. Ltd.
Dose Number / खुराक की संख्या	1/2 2/2
Date of Dose / खुराक की तारीख	2021-07-24 2021-10-28
Batch Number / बैच संख्या	4121MC030 4121MF013
Vaccinated By / टीका लगाने वाले का नाम	Tikeshwari Mongre
Vaccination At / टीकाकरण का स्थान	SHC Sirri, Mahasamund, Chhattisgarh




“दवाई भी और कड़ाई भी।
Together, India will defeat
COVID-19”

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

In case of any adverse events, kindly contact the nearest Public Health Center/
Healthcare Worker/District Immunization Officer/State Helpline No. 1075

टीकाकरण पश्चात किसी प्रतिकूल घटना के होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कर्मी/जिला टीकाकरण
अधिकारी/राज्य हेल्प लाइन 1075 पर सम्पर्क करें

COWIN
Winning Over COVID



This certificate can be verified by scanning the QR code at
<http://verify.cowin.gov.in>